

**सराहनीय कार्य दिनांक 26.08.2021 थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर**

**पिछले एक साल से चल रहे पति - पत्नी के विवाद का किया गया निस्तारण, मुंह मीठा कराकर पति व पत्नी को खुशी-खुशी थाना से भेजा गया।**

आज दिनांक 26.08.2021 को श्रीमती सुनीता पत्नी विजय साकिन गुजरौलिया थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा थाना स्थानीय पर एक प्रार्थना पत्र दिया कि उनका पति उन्हें पिछले 1 साल से छोड़ दिया है ले जाने का नाम नहीं ले रहा है, उक्त प्रकरण पर थाना प्रभारी श्री जय प्रकाश दुबे थाना मोहाना त्वरित कार्यवाही करते हुए दोनों पक्षों को थाना स्थानीय पर बुलाया, काफी देर तक दोनों पक्षों को समझाया बुझाया गया। दोनों पक्ष आपस में सुलह कर लिए हैं। पति-पत्नी को आपस में गले मिला कर मिष्ठान वितरण कराया गया। बाद कार्यवाही उपरोक्त पति व पत्नी को खुशी-खुशी थाना से भेजा गया।

**प्रेस नोट दिनांक 26.08.2021**

**शांति व्यवस्था भंग करने वाले 02 नफ़र अभियुक्त को धारा 151/107/116 सीआरपीसी के तहत मोहाना पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा न्यायालय।**

श्री यश वीर सिंह, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश पर एवं श्री सुरेश चन्द रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देश पर व श्री राणा महेन्द्र प्रताप सिंह क्षेत्राधिकारी सदर सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्री जयप्रकाश दूबे थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में आज दिनांक 26.08.2021 को अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के शांति व्यवस्था भंग कर रहे 02 नफर अभियुक्त को ग्राम गोपीजोत से गिरफ्तार कर धारा 151,107,116 सीआरपीसी के तहत माननीय न्यायालय भेजा गया।

**अभियुक्त का विवरण -**

1. संजीव कुमार पुत्र स्वर्गीय उमाशंकर
2. सुजीत कुमार पुत्र स्वर्गीय उमाशंकर सकीनान ककरहवा थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम**

1. उपनिरीक्षक श्री शिव नारायण सिंह चौकी प्रभारी ककरहवा थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर।
2. का0 इंद्रजीत कुमार थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर।

**प्रेस नोट दिनांक 26.08.2021**

**जनपद सिद्धार्थनगर में गठित एण्टी रोमियो स्क्वाड पुलिस टीम द्वारा जनपद के स्कूल-कॉलेज व भीड़-भाड़ आदि स्थानों पर मनचलों एवं शोहदों पर कार्यवाही हेतु चेकिंग की गयी।**

डॉ0 यशवीर सिंह, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में मनचलों एवं रोमियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 26.08.2021 को प्रभारी एण्टी रोमियो महिला उ0नि0 श्रीमती पूनम मौर्या द्वारा एण्टी रोमियो कार्यवाही के अन्तर्गत थाना सिद्धार्थ नगर, बासी व जोगिया उदयपुर थानाक्षेत्र में स्कूल-कॉलेज/कोचिंग सेन्टर के पास तथा थानाक्षेत्र के आस-पास के मुख्य सड़को, चौराहों पर चेकिंग की गयी।

**एण्टी रोमियों टीम का विवरण-**

- 01- महिला उ0नि0 श्रीमती पूनम मौर्या प्रभारी एण्टी रोमियो जनपद सिद्धार्थनगर।

- 02- आरक्षी राकेश यादव एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर ।  
03- महिला आरक्षी बबिता सिंह महिला थाना जनपद सिद्धार्थनगर ।

### **सराहनीय कार्य दिनांक 26.08.2021**

यातायात नियमों का उल्लंघन कर फर्टा भरने वाले वाहनों/व्यक्तियों का ई-चालान व सीज करने की कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रभारी यातायात पुलिस/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है, इसी क्रम में आज दिनांक:-26-08-2021 को जनपदीय पुलिस एवं यातायात पुलिस बल द्वारा एम0वी0 एक्ट के अंतर्गत 567 वाहनों को चेक किया गया तथा कुल 97 वाहनों का चालान कर ₹ 1,30,000/-शमन शुल्क वसूल किया गया ।

### **प्रेस नोट दिनांक 26.08.2021**

#### **थाना मिश्रौलिया वांछित चोर गिरफ्तार चोरी गया सामान बरामद**

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर श्री डा0 यशवीर सिंह के आदेश के क्रम में व अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर श्री सुरेश चंद्र रावत के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी इटवा श्री रमेश चंद्र पाण्डेय एवं थानाध्यक्ष श्री पंकज कुमार पाण्डेय थाना मिश्रौलिया के कुशल नेतृत्व में मु0अ0सं0-96/21 धारा 380/411 भादवि0 से सम्बंधित अभियुक्त को चोरी गए सामान के साथ गिरफ्तार कर न्यायालय रवाना किया गया

#### **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण**

01- मो0हाशिम पुत्र औरनजेब साकिन गौरडीह टोला कलन्दरडीह थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर।

#### **बरामद सामान का विवरण।**

--3500/- रूपये

#### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम**

01- उ.नि.श्री अमित कुमार शाही

02- का0 अमरनाथ यादव

03-का0 दुर्गेश विश्वकर्मा

### **प्रेस नोट दिनांक 26.08.2021**

#### **थाना डुमरियागंज पुलिस द्वारा 03 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।**

डा0 यशवीर सिंह पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत, श्री सुरेश चन्द्र रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में, श्री अजय कुमार श्रीवास्तव क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज के कुशल पर्यवेक्षण में, श्री शैलेश कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना डुमरियागंज सिद्धार्थनगर के निर्देशन में, आज दिनांक 26.08.2021 को थाना क्षेत्र में मारपीट जैसी घटनाओ के रोकथाम व शान्ति व्यवस्था कायम रखने के दृष्टिगत 03नफर अभियुक्तगण को नियमानुसार गिरफ्तार कर अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में माननीय न्यायालय भेजा गया । तथा शांति व्यवस्था कायम रखने के दृष्टिगत पाबन्दी की कार्यवाही की गयी ।

**प्रेस नोट - दिनांक 26.08.2021**

**थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर**

डॉ० यशवीर सिंह, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में “अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान” के अन्तर्गत श्री सुरेश चन्द रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में श्री प्रदीप कुमार यादव, पुलिस उपाधीक्षक शोहरतगढ़ के कुशल निर्देशन में अभियान के अन्तर्गत थाना शोहरतगढ़, जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा कृत कार्यवाही-

आज दिनांक 26.08.2021 को प्रभारी निरीक्षक श्री राजेन्द्र बहादुर सिंह के निर्देशन में उपनिरीक्षक हरिओम कुशवाहा मय टीम द्वारा शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने हेतु थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था भंग करने वाले एक व्यक्ति को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर अन्तर्गत धारा 151/107/116 सीआरपीसी में माननीय न्यायालय / जेल भेजा गया।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-**

मो० असलम पुत्र रमजान अली उम्र 27 वर्ष निवासी भादमुस्तहकम थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर

**गिरफ्तार करने वाली टीम-**

01. उपनिरीक्षक हरिओम कुशवाहा थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर
02. हे०का० हरेन्द्र कुमार थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर
03. का० शिबबन सिंह थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर

